



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3379]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2018/भाद्र 6, 1940

No. 3379]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2018/BHADRA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

सं 28/2015-2020

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 3.24 (ज) में संशोधन।

का.आ. 4186 (अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. विदेश व्यापार नीति 2015-20 का मौजूदा पैरा 3.24 (ज)

निर्यात प्रोत्साहन के लिए स्तर धारक निःशुल्क लागत पर स्वतंत्र रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात (रत्न और आभूषण, सोने की वस्तुएं और बहुमूल्य धातु को छोड़कर) करने के पात्र होंगे बशर्ते एक करोड़ रुपए या पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2% जो भी कम हो, की वार्षिक सीमा होगी। फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा दवा उत्पादों के निर्यात के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति की 2% की वार्षिक सीमा होगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ पीएचओ, के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादों, टीके और जीवन रक्षक दवा की आपूर्तियों के मामले में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 8% तक की वार्षिक सीमा होगी। ऐसी निःशुल्क आपूर्तियां शुल्क वापसी या किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन अन्य निर्यात प्रोत्साहन की पात्र नहीं होंगी।

3. विदेश व्यापार नीति 2015-20 का संशोधित पैरा 3.24 (ज)

निर्यात प्रोत्साहन के लिए स्तर धारक निःशुल्क आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का एक वार्षिक सीमा के अधीन निर्यात (रत्न और आभूषण, सोने की वस्तुएं और बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर) करने के पात्र होंगे जो निम्नानुसार है:

क. सभी निर्यातकों (निम्नलिखित क्षेत्रों (1) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र (2) सोने की वस्तुएं और बहुमूल्य धातु क्षेत्र के निर्यातकों को छोड़कर) के लिए विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति की 2 प्रतिशत की वार्षिक सीमा।

ख. विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान एक करोड़ रुपए अथवा औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2 प्रतिशत, की वार्षिक सीमा, जो भी कम हो (निम्नलिखित क्षेत्रों (1) रत्न और आभूषण क्षेत्र, (2) सोने की वस्तुएं और बहुमूल्य धातु क्षेत्र के निर्यातकों को छोड़कर)।

ग. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ-पीएचओ, के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादों, टीके और जीवन रक्षक दवा की आपूर्तियों के मामले में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 8% तक की वार्षिक सीमा होगी।

पैरा 3.24 (ज) के प्रावधानों के तहत की गई निःशुल्क आपूर्तियां शुल्क वापसी या किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन किसी अन्य निर्यात प्रोत्साहन की पात्र नहीं होंगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: निर्यात संवर्धन हेतु स्तरधारकों के लिए निःशुल्क निर्यात आधार पर निर्यात हेतु एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की सीमा को हटा दिया गया है तथा यह विगत तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली का 2 प्रतिशत तत्काल प्रभाव से निर्धारित कर दिया गया है।

[फा. सं. No. 01/61/180/59/AM16/PC-3]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2018

No. 28.2015-2020

Subject: Amendment in Para 3.24 (j) of Chapter-3 of FTP 2015-2020.

S.O. 4186(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-2020 with immediate effect:

2. Existing Para 3.24(j) of the FTP 2015-20

Status holders shall be entitled to export freely exportable items (excluding Gems and Jewellery, Articles of Gold and precious metals) on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rupees One Crore or 2% of average annual export realization during preceding three licensing years, whichever is lower. For export of pharma products by pharmaceutical companies, the annual limit would be 2% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. In case of supplies of pharmaceutical products, vaccines and lifesaving drugs to health programmes of international agencies such as UN, WHO-PAHO and Government health programmes, the annual limit shall be upto 8% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. Such free of cost supplies shall not be entitled to Duty Drawback or any other export incentive under any export promotion scheme.

3. Amended Para 3.24(j) of the FTP 2015-20

Status holders shall be entitled to export freely exportable items (excluding Gems and Jewellery, Articles of Gold and precious metals) on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit as below:

a. Annual limit of 2% of average annual export realization during preceding three licensing years for all exporters (excluding the exporters of following sectors-(1) Gems and Jewellery Sector, (2) Articles of Gold and precious metals sector) .

b. Annual limit of Rupees One Crore or 2% of average annual export realization during preceding three licensing years, whichever is lower. (for exporters of the following sectors-(1) Gems and Jewellery Sector, (2) Articles of Gold and precious metals sector).

c. In case of supplies of pharmaceutical products, vaccines and lifesaving drugs to health programmes of international agencies such as UN, WHO-PAHO and Government health programmes, the annual limit shall be upto 8% of the average annual export realisation during preceding three licensing years.

The free of cost supplies made under provisions of Para 3.24(j) shall not be entitled to Duty Drawback or any other export incentive under any export promotion scheme.

Effect of this Notification: The limit of Rs One Crore per year for exports on free of cost exports basis for export promotion for Status Holders is removed and is made 2% of average annual export realization during preceding three licensing years with immediate effect.

[F. No. 01/61/180/59/AM16/PC-3]
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General